



महाप्रबंधक

बनारस रेल इंजन कारखाना

वाराणसी - 221004

General Manager

Banaras Locomotive Works

Varanasi - 221004



## हिंदी दिवस संदेश

बरेका परिवार के प्रिय सदस्यगण,

आप सभी को हिंदी दिवस-2022 की हार्दिक बधाई !

आजादी के अमृतकाल में हिंदी दिवस का महत्व और बढ़ गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 01 से 14 अगस्त तक विशेष रूप से देश भक्ति काव्य पाठ, निबंध प्रतियोगिता, नाटक, रंगोली, देशभक्ति गीत प्रतियोगिता, विभिन्न रैली एवं तिरंगा यात्रा इत्यादि अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तिरंगे को हर घर में फहराया गया। देशभक्ति के तराने भी हर घर में गूंजे। गौर करें कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय भाषाओं एवं हिंदी में रचे तरानों से देशभक्ति की अलख जगाई गई थी। आजादी के आंदोलन में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ही हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसके साथ ही सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

इस संकल्प मार्ग पर चलते हुए हम बहुत आगे बढ़ आए हैं। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन जैसी परियोजनाओं ने डिजिटल दुनिया में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाया है। आज कंप्यूटर पर हमें हिंदी में कार्य करने की अनेक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं।

आवश्यकता है कि हम स्वयं अपने दैनिक कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें और तकनीकी ज्ञान सरल भाषा में कर्मचारियों एवं आम जनता तक पहुँचाएं। तकनीकी विषयों पर विचार-विमर्श करें, तकनीकी पुस्तकें हिंदी में लिखें।

आइए इस हिंदी दिवस पर संकल्प लें कि हम कार्यालयी कार्यों में शत-प्रतिशत हिंदी का प्रयोग करेंगे। इससे न केवल स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होगा, वरन माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा।

जयहिंद,

दिनांक : 14.09.2022

  
( अंजली गोयल )